#### JBM Auto Limited

Plot No. 133, Sector 24, Faridabad - 121 005 (Haryana)

T:+91-129-4090200 F:+91-129-2234230 W:www.ibm-group.com

E: secretarial.jbma@jbmgroup.com

JBMA/SEC/2024-25/18 22<sup>nd</sup> June, 2024

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400001 Script Code: 532605 The National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051

Symbol: JBMA

Sub: Submission of Copies of Newspaper Publication - Intimation of Transfer of Equity Shares on account of unclaimed dividend of the year 2016-17 to Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the following documents as required under Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016:

- 1. Copy of circular letter sent to the shareholder dated 21st June, 2024; and
- 2. Copy of newspaper advertisements published in the Business Standard, English & Hindi editions, on 22<sup>nd</sup> June, 2024.

This is for your information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For JBM Auto Limited

Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer

M. No: A18087

Encl.: As above

Corp. Office: Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon- 122003 (Hr.) T:+91-124-4674500, 4674550 F: +91-124-4674599 Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019 T: +91 11 26427104, F: +91 11 26427100 CIN: L74899DL1996PLC083073

#### **JBM Auto Limited**

CIN: L74899DL1996PLC083073

Registered Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110019

Tel. +91 11 26427104-06 Fax +91 11 26427100 E-mail id: secretarial.jbma@jbmgroup.com

Website: www.jbmgroup.com

JBMA/SEC/IEPF2016-17/01



21<sup>st</sup> June, 2024

Folio/ DP-Client ID : No. of Equity Shares :

Sub: Intimation with respect to transfer of unclaimed shares u/s 124 (6) of the Companies Act, 2013 to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Shareholder(s),

As per Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and subsequent amendments thereto, all unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to IEPF, after the expiry of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account. Further, all the shares in respect of which dividend has remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more shall also be transferred to demat account of IEPF Authority. The details of such unpaid / unclaimed dividend are regularly updated on the website of the IEPF Authority - at www.iepf.gov.in as well as on the Company's website. Reminders have been sent from time to time to the shareholders for claiming their unencashed dividend.

As per our records, your dividend is lying unpaid / unclaimed against your name. Please note that the due date for claiming final dividend pertaining to FY 2016-17 is 22<sup>nd</sup> September, 2024.

You are, therefore, requested to claim the unencashed dividends due to you by sending a request letter to MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar and Transfer Agent of the Company ('RTA'), on or before 21<sup>st</sup> September, 2024 stating your Bank Account details along with:

In case shares are held in electronic form: Copy of the client master list is to be submitted. Payment will be made to the Bank Account registered against the demat account.

In case shares are held in physical form: Investor Service Request Form ISR – 1, Form ISR – 2 and Form No. SH 13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents including original cancelled cheque stating your name as the Account holder. The Investor Request Forms are available at the website of our RTA at: <a href="https://www.mcsregistrars.com">www.mcsregistrars.com</a>

Pursuant to the SEBI Circulars dated November 3, 2021, December 14, 2021 and November 17, 2023 read with Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents dated May 17, 2023 and May 07, 2024 outstanding payments will be credited directly to the bank account if the folio is KYC Compliant. **Payment can be made to shareholders holding shares in physical form if the folio is KYC compliant.** 

In case the dividends are not claimed by the said date, the Company would initiate necessary action for transfer of shares held by you to the IEPF without any further notice, in accordance with the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF pursuant to the said Rules.

In the event of failure to claim the unencashed dividends by you before the date mentioned above, new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) will be issued and transferred in favour of IEPF Authority on completion of necessary formalities if you are holding shares in physical form. Hence, the original share certificate(s) which stand registered in your name will be deemed cancelled and non-negotiable. If you are holding shares in Demat form, the Company shall inform the Depositories to execute the corporate action and debit the shares lying in your demat account and transfer such shares in favour of IEPF Authority.

Please note that in the absence of bank details registered against your account with the RTA / Depository Participant, the payment of outstanding dividend amount cannot be effected.

#### Claim from IEPF:

However, as per the Rules, both the unclaimed dividend amount and the shares including all benefits accruing on such shares can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed e-Form IEPF-5 available on the website <a href="https://www.iepf.gov.in">www.iepf.gov.in</a> and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) to the Company at its Registered Office along with the requisite documents enumerated in e-Form IEPF-5.

In case if you have any queries or need any assistance in this regard, please contact:

Company contact details	R & T Agent contact details
Mr. Sanjeev Kumar	Unit:- JBM Auto Limited
Company Secretary & Nodal Officer	MCS Share Transfer Agent Ltd.,
JBM Auto Limited	F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area,
Plot No 133, Sector – 24, Faridabad - 121005	Phase I, New Delhi 110020

In case you have already encashed the dividend, please ignore this letter.

Thanking you, Yours Sincerely, For JBM Auto Limited Sd/-Sanjeev Kumar Company Secretary & Compliance Officer

Place: Faridabad

Public Notice he borrower, directors, guarantors and general public are informed that the loan account in M/s Gunjan Trade Link Pvt. Ltd. through directors Mr. Dev Prakash Rathi, Mr. Suresh Rathi and Mr. Satyanarayan Rathi in mortgaged industrial property Khasra No. 2518/1191, located at Adarsh Nagar, Behind Circuit House, Jaisalmer Road, Barmer (Raj.), whose area is 1861.49 square meters, will be auctioned by the bank authorized officer by conducting a public e-auction unde SARFAESI Act on 25.06.2024. The information was published in the newspaper Dainik Navjyo

and Business Standard on 15.05.2024, but the e-auction of the above property is canceled by the ank on 25.06.2024 due to unavoidable reasons, hence stay informed Authorized Officer, Bank of Baroda Date: 22/06/2024 Place: Jodhpur (Raj.)



**EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED** Regd. Office: 4th Fir, Phase II, Spencer Plaza, No.769, Mount Road, Anna Salai, Chennai-2 Tel: 044-4299 5000 Fax: 044-4299 5050

## GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given that Gold Jewellery pledged with us and not redeemed by borrowers with below mentioned loan account numbers of below mentioned branches, inspite of our repeated notices, will be auctioned in the venue and at the time aiven below:

Date: 26.06.2024 | Time: 10.00am Onwards Place of Auction: EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED

LOCATION	BRANCH NAME	LOAN NUMBERS
JODHPUR	JODHPUR	JDPURPJ2312260001
JODHPUR	BIKANER	BKNERPJ2309140001

NOTE: 1. Customers who are interested in redeeming the jewellery by paying the Outstanding dues may do so before the commencement of auction, at the concerned branches. 2. Interested Bidders shall produce their identity Card / Pan Card No. / GST No. (In case registered firm/company).

for Equitas Small Finance Bank Limited Place: Jodhour Date: Jun 22, 2024 Authorised Signatory

> POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, he undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING (CIN:L65922DL2005PLC136029) FINANCE LIMITED under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 14.08.2023 calling upon the Borrower(s) RAM KUMAR AND SAPNA to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.19,12,859.68 (Rupees Nineteen Lakh Twelve Thousand Eight Hundred Fifty Nine and Paise Sixty Eight Only) against Loan Account No. HHLDMT00456461 as on 14.08.2023

and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.06.2024 The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.19,12,859.68 (Rupees Nineteen Lakh Twelve Thousand Eight Hundred Fifty Nine and Paise Sixty Eight Only) as on 14.08.2023 and interest thereon The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. SF-401 (M.I.G.) ADMEASURING 550 SQUARE FEET EQUIVALENT TO 51.09 SQUARE METERS ON SECOND FLOOR, (WITH ROOF RIGHTS) LEFT HAND FRONT SIDE CONSTRUCTED UPON PLOT NO. C-1/10 SITUATED IN DLF ANKUR VIHAR, VILLAGE SADULLABAD, PARGANA & TEHSIL LONI GHAZIABAD-201002, UTTAR PRADESH AND WHICH IS BOUNDED AS FOL LOWS:

EAST : FLAT NO. SF 402 (M.I.G) WEST : PLOT NO. C-1/9 NORTH: COMMON PASSAGE AND STAIRS

SOUTH: ROAD 12 METERS WIDE

Date: 18.06.2024 lace : GHAZIABAD

Authorized Office INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

## JBM AUTO LIMITED

(CIN: L74899DL1996PLC083073) Regd. Office:601, Hemkunt Chambers 89. Nehru Place, New Delhi - 110019 E-mail: secretarial.ibma@ibmgroup.com Website: www.jbmgroup.com

Ph. 011-26427104-06; Fax: 011-26427100



#### NOTICE (For the attention of the Equity Shareholders of the Company) Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and

Protection Fund (IEPF) Authority NOTICE is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and

Refund) Rules, 2016 ('the Rules'), as amended from time to time. The Act and the Rules, amongst other matters, contain provisions for transfer of unpaid / unclaimed dividends to IEPF and transfer of shares in respect of which dividend is unpaid / unclaimed for seven consecutive years or more, to the Demat Account of IEPF Authority. As provided under the Rules, individual communications have been sent to the concerned shareholders at their registered address whose

shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPE Authority The Company has also uploaded complete details of the concerned shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are due for transfer to the IEPF Demat Account on its website at www.ihmaroup.com The concerned shareholders are requested to verify the details of their unclaimed dividend and the shares liable to be transferred to the IEPF

Shareholders can claim their unclaimed dividend by writing to the Company Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') of the Company viz. MCS Share Transfe Agent Limited by providing Investor Service Request Form ISR – 1, Form ISR - 2 and Form No. SH 13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents including original cancelled cheque stating the name of account holder in case of physical securities. The Investor Request Forms are available at the website of our RTA at www.mcsregistrars.com. Copy of the client master list is to be submitted in case of securities in electronic form. Payment of dividend will be made to the Bank Account registered against the demat

Please note that you are requested to send the documents for claiming the dividends on or before 21st September, 2024. In case the dividends are not claimed by the said date, the Company would initiate necessary action for transfer of shares held by you to the IEPF without any further notice, in accordance with the Rules, as under:

 For shares held in physical form - Dublicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) will be issued and transferred in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of the shareholder will be deemed cancelled and non-negotiable.

• For shares held in electronic form - The Company shall inform the Depositories to execute the corporate action and debit the shares lying in your demat account and transfer such shares in favour of the IEPF Authority.

The concerned shareholder(s) are further informed that all future benefits arising or

such shares would also be transferred to the IEPF Authority.

Date : 21st June, 2024

Place: Faridabad

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of amount of unclaimed dividend and equity shares transferred to the IEPF Authority pursuant to the said Rules

Shareholder(s) may please note that in the event of transfer of their unclaimed dividend and shares to the IEPF Demat Account, they may claim from the IEPF Authority both the unclaimed dividend amount and the shares including all benefits accruing on such shares can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed e-Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) to the Company at its Registered

Office along with the requisite documents enumerated in e-Form IEPF-5. In case of any queries or assistance on the subject matter, the share holders may contact to MCS Share Transfer Agent Limited, Registrar & Share Transfer Agent of the Company at F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - 1, New Delhi-110020 or email at secretarial.jbma@jbmgroup.com.

For JBM Auto Limited Sd/-Sanjeev Kumar

**Company Secretary &** Compliance Officer M.No. 18087

POSSESSION NOTICE

Whereas,

∆GYas

Name of the Borrower

Place : Jaipur

SHAKUNTLADEVI, SINGHMAHIPAL (A/c No.) LNDNS06721-220219479

Firozabad-28320

Date: 22-06-2024

Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated

17.09.2021 calling upon the Borrower(s) PRADEEP KUMAR UPADHYAY, SHASHI SHUKLA, PARVEJ AND PREM RAJ BANSAL to repay the amount mentioned the Notice being Rs.21,82,469.3 (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Two Thousand Four Hundred Sixty Nine and Paise Thirty Only) against Loan Account No. HHLNOD00332058 as on 26.06.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby giver to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taker possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.06,2024 The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.21.82.469.3 (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Two Thousand Four Hundred Sixty Nine and Paise Thirty Only) as or 26.06.2021 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO. FF 2 FIRST FLOOR, FRONT RIGHT HAND SIDE, PLOT NO.B 5/12 , DLF ANKUR VIHAR, LONI GHAZIABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201014.

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place : GHAZIABAD

POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 21.09.2023 calling upon the Borrower(s) SARVESH YADAV AND SHVETA YADAV to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.14,59,032.72 Rupees Fourteen Lakh Fifty Nine Thousand Thirty Two and Paise Seventy Two Only) against Loan Account No. HHLNOD00365810 as on 19.09.2023 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 18.06.2024 The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.14,59,032.72 (Rupees Fourteen Lakh Fifty Nine Thousand Thirty Two and Paise Seventy Two Only) as on 19.09.2023 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY APARTMENT NO. C-1201A HAVING SUPER AREA 895 SQUARE FEET ON 12A FLOOR, TOWER-C IN THE RESIDENTIAL PROJECT KNOWN AS ' MAHALUXMI GREEN MANSION". CONSTRUCTED UPON HRA-14. OPP. ZETA1 SURAJPUR- SITE C, GAUTAM BUDHA NAGAR, GREATER NOIDA – 201303, UTTAR PRADESH ALONGWITH PROPORTIONATE, IMPARTIBLE AND UNDIVIDED SHARE IN THE LAND AREA UNDERNEATH THE APARTMENT

Date: 18.06.2024 **Authorized Office** Place : GREATER NOIDA INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

Date & Type
of Possessio

Physical

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificate No 7 for LT Foods Limited (INE818H01020 Equity Shares of Rs. 1/- (Rupees one only each hearing Distinctive No.(s) 86341-9634 Folio No. 0000103 of LT Foods Limited having its registered office at Unit No. 134 First Floor, Rectangle - 1, Saket District Centre. Saket 110017 registered in the name of Mr. Gagan Pal Singh Anand (Alias Gagar Pal Singh) have been lost. Mr. Gagan Pa Singh Anand have applied to the compan for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication o

# DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2) Ist Floor SCO 33-34-35 Sector-I7 A, Chandigarh (Adttional space allotted on 3rd & 4th Floor also)

Case No.: OA/223/2024 Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub

rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993 **UCO BANK** 

### M/S RISABH TEXTILES AND OTHERS

(1) M/s Risabh Textiles, Through Its Proprietor Mr. Ashok Kumar, Address at hop No. 4, Gupta Complex, Shorey Cloth Market, Rohtak Haryana. (2) Mr. Ashok Kumar (proprietor) M/s Risabh Textiles, Son of Shri Prem hand Address at :-

(II) Shop No. 4, Gupta Complex, Shorey Market, Rohtak, Haryana.
(II) House No. 1031, Ward No. 5, Peer Ji Mohalla, Rohtak Haryana. (3) Mr. Rajeev Goyal Son of Mr. Ashok Kumar, Address At House No. 1031 vard No. 5, Peer Ji Mohalla, Rohtak Haryana

#### SUMMONS

WHEREAS, OA/223/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/

Registrar on 23/04/2024.
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act. (OA) filed against you for recovery of debts of Rs.6583654.43/- (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the

defendants are directed as under:(I) To show cause within thirty days of the service of summons as to why

relief prayed for should not be granted.
(II) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the origina

application. (III) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original

application, pending hearing and disposal of the application for attachment of (IV) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the

ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approva

(V) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale o ecured assets or other assets and properties in the ordinary course o business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file written statement with a copy thereo furnished to the applicant and to appear before Registrar on 07/08/2024 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in

Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date:

Signature of the Officer Authorised to issue summons

Head Office: HDFC Bank Ltd., HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel, Mumbai - 400 013. Branch Office: HDFC Bank Ltd, Rajendra Space Plot

NOTICE l your world No.6, Sector-16B, Awas Vikas, Sikandra Yojna, Agra-282007 DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. The following borrowers & co-borrowers availed the below mentioned secured loans from HDFC Bank Ltd. the loans of below mentioned

**AAVAS FINANCIERS LIMITED** 

Description of Property

PLOT NO D-57& D-58 2ND FLOOR RHS FLAT WITHOUT ROOF RIGHTS FLAT NO-SF-1 SLF

VED VIHAR, Ghaziabad GHAZIABAD UTTAR

PRADESH 201102 Admeasuring 507 sq. ft.

Notice Date: 17/05/2024

**Authorised Officer Aavas Financiers Limited** 

Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Are

POSSESSION NOTICE

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "AU HOUSING FINANCE LIMITED") under the Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred upon me under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the respective notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on the dates mentioned as below.

The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "AU HOUSING FINANCE LIMITED") for an amount mentioned as below and further interest thereon.

Date & Amount

Rs. 1804306/-

4 Jan 24

borrowers & co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms & conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA's as per the RBI guidelines. Amounts due by them to HDFC Bank Ltd are mentioned in the following table and further interest on the said amounts shall also be payable as applicable and the same will be charged with effect from their respective dates.

Date of NPA 18-07-2022 Name of Borrowers :-Loan A/c No / Product : Outstanding as per 13(2)/Notice Date: Mr. Suraj Kumar Jha S/o 110126020 / Sh. Braj Mohanadd: Mohammada Bad, ULTRA LIGHT COMMERCIAL as on Mohammada Bad, Tundla,. VEHICLE 16-05-2024...

Since the notices sent to you in the address in which you originally reside / carry on business / personally works for gain has not returned to us, we are constrained to cause this notice published. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the Bank will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets. **Authorised Officer** 

Date: 22.06.2024., Place: Firozabad For HDFC Bank Ltd

> **BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED** Corporate Office: Cerebrum It Park B2 Building, 5th Floor, Kalyari Nagar, Pune, Maharash 14th Floor Agarwal Metro Heights Netaji Subhash Palace Pitampura New Delhi -110034 Authorized Officer's Details: Name: LALIT TYAGI, Email ID: lalit.tyagi@bajajfnserv.in , Mob No. 9855733149 /8669 189048

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF THE SECURITY INTEREST ACT 2002 ('Act') Notice is hereby given to the public in general that the below mentioned Borrower/co-borrower mortgaged the immovable property which is described hereunder to Bajaj Housing Finance Limited ('BHFL') and the possession of the said immovable property ('secured asset/property') has been taken over by the Authorized Officer in accordance of the SARFAESI Act 2002 and rules there to. The secured asset will be sold through public auction by bidding for realization of the loan dues, applicable interest, charges and costs etc., payable to BHFL as detailed below. The secured asset is being sold on 25-July-2024 and the bidding will be held on "AS IS WHERE IS". "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" under the rule number 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules (hereinafter referred to as the rules) and on the terms and conditions specified here-under:

LOAN ACCOUNT DETAILS / BORROWER/S & GUARANTOR/S 1.DATE & TIME OF E-AUCTION 1. RESERVE PRICE 2.LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD NAME & ADDRESS 3.DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION 3. BID INCREMENT

LAN:- H401HHL0231812, H401HLT0240765 1.VIPIN KUMAR (Through legal heir 1) E-AUCTION DATE :- 25-July-2024 BETWEEN 11:00 AM TO 12:00 PM WITH UNLIMITED EXTENSION OF 5 MINUTES 2.) LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH ince deceased) & (Borrower) At Third Floor Without Roof Rights, KÝC IS :- 24-July-2024 UP TO 5:00P.M. (IST.) 3.) DATE OF INSPECTION: :- 24-June-2024 to 23-Property No- C-195 Jhilmil, Delhi Also At S/o Panna Lal Add-b-36

3.) DATE OF INSPECTION: :- 24-June-2024 to 23July-2024 BETWEEN 11:00 AM TO 4:00 PM (IST).
4.) Description Of The Immovable Property: FLAT
NO. G-04 GROUND FLOOR BACK SIDE LIG, PLOT NO.
N.K.P-1 /58 NYAY KHAND 1 INDIRAPURAM, GHAZIABAD,
UTTAR PRADESH-201010 ADMEASURING 30 SQ MT.
Sat : 12 MTR ROAD, West: PLOT NO 47, North: PLOT
NO 59, South: PLOT NO 57 Rs.43,73,553/- (Rupees Forty Three Lakhs Seventy Three Thousand Five

13,50,000 /- (Rupee Thirteen Lakhs Fifty Thousand Only) EMD: Rs 1,35,000/-

Hundred Fifty Three Only) Along with future interest and charges accrued w.e.f 14-Jun-2024 Terms and Conditions of the Public Auction are as under:

Terms and Conditions of the Public Auction are as under:

I. Public Auction is being held on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" and is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to Bajaj Housing Finance Limited. 2. The Secured asset will not be sold below the Reserve price. 3. The Auction Sale will be online through e auction portal. 4. The e-Auction will take place through portal https://bankauctions.in, on 25-July-2024 from 11:00 AM to 12:00 PM to onwards with unlimited auto extension of 5 minutes each. 5. For detailed terms and conditions please refer company website URL https://www.bajajhousingfinance.in/auction

otices or for any clarification please connect with Authorized officer Date: 22/06/2024 Place:- Delhi/NCR Authorized Officer (LALIT TYAGI) Bajaj Housing Finance Limited

Telecom Staff Quarter Vivek Vihar East Delhi 110095 TOTAL OUTSTANDING:

## SHRIRAM HOUSING HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office: No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600 001 Corporate Office: Level 3, Wockhardt Towers, East Wing, C-2, G Block, Bandra-Kurla Complex, Mumbai - 400 051,

Toll Free: 1800-102-4345, CIN: U65929TN2010PLC078004 Email: contact@shriramhousing.in, Website: www.shriramhousing.in

## PUBLIC NOTICE

By virtue of this notice, all customers of Shriram Housing Finance Limited and Public at large are hereby informed on change of address of Bikaner Branch, Rajasthan w.e.f., 23rd September 2024.

Branch Name	Existing Office Address	New Office Address (Relocation)
Bikaner	Floor -II, Above Punjab National Bank, Rani Bazaar,	1st Floor, Vishwas Plaza, Rani Bazar Circle, Bikaner,
	Raiasthan -334001	Raiasthan – 334001

For further details/queries, please contact us through the Toll Free No./send us an email/visit our branch at the address given above.

Date: 22nd June, 2024 For Shriram Housing Finance Limited Place: Bikaner, Rajasthan **Authorised Signatory** 

HINDUJA HOUSING FINANCE

Name of the Borrowers

#### HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED No. 167-169, 2nd Floor, Little Mount, Saidape

Chennai-600015 | Ph: 044-3008166

Details

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) under the Securitization ar

deconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12 read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notice under section 13(2) calling upon the below mentioned borrowers to repay the amount mentioned in the notice alongwith further charges and interest etc. within 60 days from the date of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the ndersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) o ection 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002 Demand Symbolic Notice Date & Possession Account Number & Description of the Contact Person

Amount (Rs.) Date & Amount

01/02/2024

		Aillouilt (ns.)	Date & Allibuilt		
1.	RJ/JPR/SGNR/A00000068 & CO/CPC/CPOF/A000000247 Mr. Kailash Chandr Yadav (Borrower) & Mr. Sitaram Yadav (Co-Borrower)	28/03/2024 & Rs. 8,78,788/- (Rupees Eight Lakh Seventy Eight Thousand Seven Hundred Eighty Eight Only) as on 15/03/2024	8,51,597/- (Rupees Eight Lakh Fifty One Thousand Five Hundred Ninety	All that part and parcel of the property situated at Patta No. 04, Village Kolwa, Gram Panchayat Simarla Jagir, Panchayat Samiti Shrimadhopur, District Sikar (Raj.) Admeasuring Area 388.88 Sq. Yards. Bounded By — North: Ramu ki Khatedari Bhoomi, South: Common Road, East: Common Chowk, West: Common Road	CLM-Neha Kumawat- 7877008700 CRM- Man Singh Shekhawat 9602222269, RRM- Siddhartha
	RJ/AJM/AJMR/A00000531 Mr. Ritik Beawat (Borrower), Mr. Gopal Lal Beawat (Co- Borrower) & Mrs. Lali Devi (Co-Borrower)	05/03/2024 & Rs. 6,28,624/- (Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Six Hundred Twenty Four Only) as on 07/03/2023	6 47 713/-	All that part and parcel of the property situated at Patta No. 13, Missal No. 13/06-09-2021, Book No. 2021/94, Sankalp No. 03, Village Rupaheli Kalan, Gram Panchayat Rupaheli Kalan, Panchayat Samity Hurda, Tehsii Hurda, Distt. B hilw ara, Rajasthan-311030 Admeasuring Area 675 Sq. Ft. Bounded By: East: Public Road, West: House of Bharat Beawat, North: House of Vikram Beawat, South: House of Bharat Beawat	CLM-Sanjay Kumar- 9649666669, CRM-Nirmal Kumar- 8619071381, RRM- Siddhartha Singh – 7891119990, BLM-
3.	RJ/SUM/SUME/A000000003 & CO/CPC/CPCO/A000000103 Mr. RAJENDRA KUMAR (Borrower) & Mrs. Leela Devi (Co-Borrower)	24/02/2024 & Rs. 11,28,192/- (Rupees Eleven Lacs Twenty Eight Thousand One Hundred Ninety Two Only) as on	20/06/2024 & Rs. 11,28,192/- (Rupees Eleven Lacs Twenty Eight Thousand One Hundred Ninety	All that part and parcel of the property situated at Patta No. 20, Misal No. 20, Gram Panchayat Arthwada, Panchayat Samiti Shivganj, Dist. Sirohi, Admeasuring Area 1523 Sq. Feet.	CLM-Mahendra Joshi- 9460022500, CRM- Sikander Khan 9928837777, RRM-

Bounded By: North-Bhagwanaram, South 7891119990, RLM-- Kanaram, East-Juharmal, West – Way 11/12/2023 & Rs. 17,08,796/- (Rupee 19/06/2024 & Rs. 47,08,796/-(Rupees Forty All that part and parcel of the property Authorised Officer 4. DL/BDP/BDRP/A000000635 8 All that part and parted of the property and indised ordicel, situated at Khasra No.530, Village Khanpur, Tehsil Tapukara, District Alwar (Raj.) Admeasuring Area 277.77 Sq. Yards 8302140707, RRM-CO/CPC/CPOF/A000000940 Forty Seven Lakh Mr. Karam Veer (Borrower) & Eight Thousand Seven Hundred Seven Lakh Eight Thousand Seven Mrs. Asha Asha (Co Borrowe Hundred Ninety Boundary By: North- Property of Karam Siddharth Veer, South— House of Lakhpath, East— Singh—7891119990, RLM-Pramod Prakash Sharma—9928078531 18/06/2024 & Rs. All that part and parcel of the property Authorised Officer, 13,65,282/- (Rupees Thirteen Gram Panchayat Sikri, Panchayat Samiti 9799744371, CRM-5. RJ/ALW/ALWR/A000000109/ 26/03/2024 & Rs. 13,65,282/- (Rupee the Legal Heirs of Late Mr. Rohtash Rohtash (i). Mrs. Seema Prajapat W/o Rohtash Thirteen Lakh Sixty Nagar, District Bharatpur (Raj.) Amit Singh Shekhawa Admeasuring Area 46.44 Sq. Yards Boundary By: North-Road, South-House of Mahaveer, East-House of Amar Chand, West-Land of Madan Lal Five Thousand Two Lakh Sixty Five Hundred Eighty Two Only) as on 01/01/2024 Rohtash (Borrower) & Mrs. Seema Prajapat (Co Borrow

Two Only) as or 01/01/2024 Sharma-9928078531 19/06/2024 & Rs. All that part and parcel of the property Authorised Officer, 27,68,942/-(Rupees Twenty Seven Lakh Sixty Eight Thousand Nine Hundred Shishram, South Common Road 6Ft Siddhartha 6. DL/BDP/BDRP/A000000843 20/11/2023 & Rs. 27,68,942/- (Rupees Twenty Seven Lakh Sixty Eight Thousand Mr. Rajpal Rajpal (Borrower) & Mrs. Hanso Devi (Co Borrowe Nine Hundred Forty Two Only) as on 13/10/2023 Forty Two Only) as Wide, East- House of Jile Singh, West - Singh-789111990, on 13/10/2023 Common Road 9Ft Wide Common Road 9Ft Wide Sharma-9928078531 18/06/2024 & Rs. All that part and parcel of the property Authorised Officer,

7. RJ/ALW/ALWR/A000000012& 26/03/2024 & Rs. CO/CPC/CP0F/A000000113 All 10,84,778/- (Rupees Situated at Plot No. A-320, Khasa CLM-Sumit Mathur-No.269,270 Rath Nagar, Gram Ballaboda, Tehsil & District Alwar (Raj.) Admeasuring 8302140707, RRM-Rupees Ten Lakh the Legal Heirs of Late Mr. Ten Lakh Eighty Four Nawal Singh Yadav (i) Mrs. La Devi W/o Late Nawal Singh Yadav (Borrower), Mrs. Lali Eighty Four Thousand Seven Hundred Seventy Hundred Seventy Area 380.85 Sq. Yards Boundary By: Siddhartha North- Plot No.A-321, South- Plot No.A- Singh-7891119990, 319, East- Road, West - Plot No.A-297 RLM-Pramod Prakash Sharma-9928078531 Eight Only) as on Devi (Co Borrower) & Mr. Pradeep Kumar (Co Borrow 01/02/2024 319, East-Road, West-Plot No.A-297 8. RJ/KTA/KOTA/A000000241 05/03/2024 & Rs

All that part and parcel of the property Authorised Officer, situated at PATTA NO. JWR 9577, MISSAL CLM-Yagya Narayan NO. 2, KHASRA NO. 807, VILLAGE Singh-982945179, DURGPURA, GRAM PANCHAYAT CRM-Balwant Singh 5 65.563/- (Rupees SITA BAI BANJARA 5,65,563/-(Borrower) & RAMSINGH (Rupees Five Five Lakh(s) Sixty akh(s) Sixty Five BANJARA (Co-Borrower) Five Thousand Five DURGPURA, PANCHAYAT SAMITY 9680785883, RRM JHALRAPATAN, TEHSIL JHALRAPATAN, Siddhartha DISTT. JHALAWAR, RAJASTHAN-326001 Singh-789111990 Admeasuring Area 896 Sq. Ft. Bounded RLM-Pramod Prakash By: East: Devilal, West: Udailal, North: Sharma-9928078531 lundred Sixty Three Hundred Sixty Three Only) as on 05/03/2024 Only) as on 05/03/2024

Main Road, South: Udailal Maintvoid, 2001. South: g RJ/KTA/KOTA/A000000592 05/03/2024 & Rs. MR. NARENDRA NAGAR 5,51,570/- (Rupees Five Lakh(s) Fifty MRS. KANTI BAI (Co-One Thousand Five Borrower) Hundred Seventy 05/03/2024

10 KA/KTA/KOTA/A000000036 05/03/2024 & Rs. 17/06/2024 & Rs. All that part and parcel of the property Authorised Officer, situated at Ward No. 09, Khasra No. 1181, CLM-Yagya Narayan Village Kawai, Distt. Baran, Rajasthan CRM-Balwant Singh MR. BHUPENDRA KUMAR 4,05,423/- (Rupees 4.05,423/ (Rupees Four (Borrower) & MRS, LAXMI BA Four Lakh(s) Five Lakh(s) Five Thousand Four Hundred Twenty Admeasuring Area 500 Sq. Feet. Bounded 9680785883, RRM-(Co-Borrower) Thousand Four By: East: House of Murari Lal, West: Public Siddhartha
Road, North: House of Kailash Chand,
South: House of Hari Ballabh
RLM-Pramod Prakast Hundred Twenty Three Only) as on Three Only) as on 05/03/2024 05/03/2024 South: House of Hari Ballabh Sharma-9928078531

The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HHFL alongwith further charges and interest etc. thereon.

(Authorised Officer Date: 22.06.2024 Place: Rajasthan Hinduja Housing Finance Limited.

BADA OF MANGI LAL



## ANAND RATHI

साथ-साथ आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ("एआरजीएफएल") (प्रतिभृत ऋणदाता) के पास प्रतिभृत निम्न विवरणि क साध-साध आनंद राठा रन्धावल काइनस्त (तानाटड (**एआरजाएकएका** ) प्रात्मनु करणदाता) के पास प्रात्मनुत ।नम्न ।वयरणत कुन्तुच्चिन्त अवस्त संपत्ति, जिसका अतिश्रास्त एकार्यक्रिएकए को क्राविक्त अधिकारी द्वारा कर दिला गया है, का किका मिन वर्णितानुस्तर उचारकर्ता / गारंटरों की ओर से. **अनुन्त्री** में विशिष्ट रूप में अकित कुल यशि तथा राशि पर सर्विदागत व्याज तथा यसूनीकरण की तिथि तक अन्य लानत एवं युक्तों की वसूनी के लिये 'जैसी है जाई हैं' एवं 'जैसी है जो हैं 'तथा 'उन्हों जो कुछ में हैं' आवार पर अनुन्तुष्ति में विशिष्ट रूप में अकित तिथि पर वेबसाइट https://sanfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से एक ऑनलाइन ई-नीलामी द्वारा किया जायेगा।

**उधारकर्ता का नाम : (1) मैसर्स सनराइज इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता),** विकास नगर, द्वितीय माइलस्टोन, बसई रोड, गुड़ग

सह—उधारकर्ता / ओं का नाम : (2) श्री प्रदीप शर्मा (सह—उधारकर्ता), मकान नं. ⊢801, प्रथम तल, ब्लॉक−।, पा विहार, गुडगांव, हरियाणा—122017**, (३) श्रीमती रुचिरा जर्मा (सह—उपारकती),** मकान नं. ।—801, प्रथम तल, ब्लॉक— पालम विहार, गुडगांव, हरियाणा—122017

अनुसूची : दुकान सं. 26-ए, खसरा सं. 1020, गांधी नगर, तहसील एवं जनपद गुड़गांव, हरियाणा- 12200

ı	<b>सीमा :- पूर्व-</b> अन्य की संपत्ति, <b>पश्चिम</b> - पटीर	री मार्ग, <b>उत्तर</b> — अन्य की संपत्ति, <b>दक्षिण</b> — अन्य की संपत्ति।
ı	बकाया राशि (भविष्य के ब्याज और लागत के साध	<b>रु</b> . <b>23,55,108/-</b> (रुपये तेईस लाख पचपन हजार
ı	मांग सूचना के अनुसार)	एक सौ आठ मात्र)
ı	नीलामी की तिथि	22 जुलाई, 2024
ı	आरक्षित मूल्य	<b>रु. 35,04,000/—</b> (रुपये पैंतिस लाख चार हजार मात्र)
ı		
ı	धरोहर राशि जमा	आरक्षित मूल्य का 10%
ı	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	₹. 10,000/-
ı	इच्छुक क्रेताओं के लिये संपत्ति के निरीक्षण	15 जुलाई 2024
ı	की तिथि एवं समय	प्रातः 10 से अप. 4 बजे तक
ı	केवाईसी प्रलेखों / ईएमडी प्रमाण इत्यादि के साध	19 जुलाई, 2024 को अप. 4.00 बजे तक
ı	निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथ एवं समय	केवाईसी प्रलेखों के साथ
ı	ऑनलाइन ऑफर्स खोलने की तिथि एवं समय	22 जुलाई, 2024 को प्रातः 10:00 से अप. 1.00 बजे के मध्य

तोट : इच्छुक बोलीदाता / क्रेता नीलामी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के लिये आनंद राठी यु बसाइट www.rathi.com देख सकते हैं।

यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ता / गारंटरों के लिये प्रतिभत्ति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1 iतर्गत निर्धारित 30 दिवसीय सूचना भी है।

हस्ता./- आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेर दिनांक : 21 जून, 2024 स्थान : दिल्ली

## जेबीएम ऑटो लिमिटेड

(CIN: L74899DL1996PLC083073) पंजी, कार्यालयः 601, हेमकंट चैम्बर्स

अनसरण में एतददारा सचना दी जाती है।

89. नेहरू प्लेस. नई दिल्ली - 110019 ई-मेल: secretarial.jbma@jbmgroup.com वेबसाइट: www.ibmgroup.com

फोन. 011-26427104-06; फैक्स: 011-26427100

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कंपनी के इक्विटी

शेयरों का स्थानांतरण कंपनी के शेयरधारकों को समय-समय पर यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा—परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के प्रावधानों के

अधिनियम और नियमों में, अन्य मामलों के साथ—साथ, ऐसे अप्रदत्त / अदावाकत लाभाशों का आईईपीएफ को स्थानांतरण किये जाने तथा ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण किये जाने का प्रावधान है जिनका लगातार सात या अधिक वर्षों के लाभांश का भुगतान नहीं हुआ है / दावा नहीं किया गया है। नियमों के तहत प्रावधान के अनुसार, संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर व्यक्तिशः पत्र भेज दिये गये हैं जिनके शेयर आर्दर्दपीएफ पाधिकरण के ढीमैट खाते में स्थानांतरित किये जाने वाले हैं।

कंपनी ने उन संबंधित शेयरधारकों के पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.jbmgroup.com पर भी अपलोड कर दिये हैं, जिनके लाभांश का लगातार सात वर्षों के लिए दावा नहीं किया गया है और जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित किये जाने हैं. संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित किये जाने वाले शेयरों के विवरण का सत्यापन कर लें।

शेयरधारक भौतिक प्रतिभूतियों के मामले में अपने अदावाकृत लाभांश का दावा, कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('RTA') अर्थात एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को निवेशक सेवा अनुरोध फार्म आईएसआर—1, फार्म आईएसआर—2 और फार्म नं. एसएच 13 (नामांकन फार्म) इनमें दिये गये अनुदशों के अनुसार विधिवत भरकर साथ में खाता धारक के नाम के उल्लेख वाले मूल निरस्त चैक सहित समर्थित दस्तावेज संलग्न करते हुए लिखित अनुरोध भेजकर कर सकते हैं। निवेशक अनुरोध फार्म हमारे आरटीए की वेबसाइट www.mcsregistrars.com पर उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रतिभूतियों के मामले में क्लायंट मास्टर लिस्ट प्रस्तुत की जानी है। लाभांश का भुगतान डीमैट खाते के तहत पंजीकृत बैंक खाते में किया जायेगा ।

कृपया नोट कर लें कि आपसे लाभांश का दावा करने के लिए दस्तावेज 21 सितंबर, 2024 को अथवा इससे पहले भेजने का अनुरोध किया जाता है। यदि उक्त तिथि तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, कंपनी आप द्वारा धारित शेयरों का निम्नानुसार नियमों के अनुरूप बगैर कोई सूचना दिये आईईपीएफ में स्थानांतरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर

• भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए - मूल शेयर प्रमाण-पत्रों के बदले डुप्लिकेट शेयर प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित कर दिये जायेंगे। मूल शेयर प्रमाण—पत्र जो कि शेयरधारकों के नाम में पंजीकत हैं, उन्हें निरस्त और अबेचनीय माना जायेगा।

• इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लिए - कंपनी डिपाजिटर्स को निगमित कार्रवाई निष्पादित करने और आपके डीमैट खाते में पड़े शेयरों को डेबिट करने तथा ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने हेतु सूचित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों को आगे सचित किया जाता है कि ऐसे शेयरों के तहत भविष्य में अर्जित कोई भी लाभ भी आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिये जायेंगे।

कृपया नोट कर लें कि उक्त नियमों के अनुसरण में कंपनी के प्रति अदावाकृत लाभांश की राशि और आईईपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के प्रति

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि उनके अदावाकृत लाभांश और शेयरों का आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरण होने पर, वे अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों, ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों सहित, दोनों का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से वेबसाइट www.ienf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित ई—फार्म आईईपीएफ—5 में ऑनलाइन आवेदन—पत्र और इसकी विधिवत हस्ताक्षरित (कंपनी के पास दर्ज नमना हस्ताक्षर के अनसार) भौतिक प्रति, साथ में ई–फार्म आईईपीएफ–5 में उल्लिखित इनके अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करते हुए कंपनी को इसके पंजीकृत पते पर भेजकर कर सकते हैं।

विषय मामले में कोई भी प्रश्न अथवा सहायता के मामले में शेयरधारक एमसीएस शेयर ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस—1, नई दिल्ली—110020 से अथवा ई—मेल secretarial.jbma@jbmgroup.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कते जेबीएम ऑटो लिमिटेड हस्ता/-संजीव कुमार कंपनी सचिव एवं

दिनांकः 21 जून, 2024 स्थानः फरीदाबाद

अनुपालना अधिकारी M.No. 18087

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 941 सीआईएन : L74899DL1964GO1004281 : ''बीएचईएल हाउस'' सीरी फोर्ट, नई दिल्ली—110049 ती : 011-66337000, फैन्स : 011-66337428 hasebolderguery@bhel.in

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित करने हेतु) विषयः निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि नियम 2016, यथा संशोधित के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। उन शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है जिन्होंने कंपनी द्वारा 2016–17 (अंतिम लाभांश) से लगातार 7 वर्षों तक घोषित लाभांशों को नहीं भुनाया है, और अगर वे 22 . अक्टूबर, 2024 तक लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो उनके अंतर्निहित शेयरों के आईईपीएफ श्यानांतरण हेत कार्यवाही की जाएगी। जिन शेयरधारकों के शेयर स्थानांतरण के लिए दायी है उनके नाम, शैयर फोलियो नम्बर या डीपी आईडी / ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट https://bhel.com/shareholders-who-have-not-claimed-dividend-consecutively 2016-17-final-dividend पर उपलब्ध है। नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन करत् हुए, कम्पनी ने आईईपीएफ खाते में अंतरण के योग्य सभी शेयरों के बारे में संबंधित शेयरधारकों के

. यक्तिगत रूप से उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सचित किया है। शेयरधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे दावा न किए गये लाभांश हेतु उपरोक्त तिथि तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है अथवा इन्हें भुना सकते हैं। इसके लिए वे सभी अपेक्षित दस्तावेजों समेत एक आवेदन पत्र हमारे रजिस्टार एवं हस्तांतरण एजेंट. **मैसर्स अलंकि**त एसाइनमें ट्स लिमिटेड के पास उपरोक्त तिथि तक अवश्य भेजें। अगर शेयर धारक उपरोत्त तेथि तक लाभांश हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते अथवा इन्हें नहीं भुनाते हैं तो कम्पनी पूर्वोत्त नियमों में उल्लेखित सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए 2016—17 (अंतिम लाभांश) के दावा न किए गये लाभांश के साथ बिना किसी अगली सूचना के इन शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने के

कपया ध्यान दें:- शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते में हस्तांतरित किए गये दावा न किये गये लागांश और शेयर एवं उन पर उपार्जित लाम सहित, यदि कोई हो, नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा करके वापस ले सकते हैं।

इस मामले में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु शेयरधारक कृपया सम्पर्क करें रजिस्ट्रा एवं ट्रांसफर एजेंट- मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, श्री रमेश खदुआ, 4ई/2 अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110055, टेली: 011—42541234 फैक्सः 011–23552001, ई–मेलः rta@alankit.com वेबसाइटः www.alankit.com

**क)** डीमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डी.पी.) र संपर्क कर सकते हैं ताकि एनईसीएस ईसीएस सुविधा का लाग उठा सकें या पता / बैंब डिटेल्स / एनईसीएस / ईसीएस मैंडेट को यदि कोई हो तो अपडेट कर सकते हैं।

**ब)** भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक पता / बैंक विवरण, एनईसीएस / ईसीएस मैंडेट में किसी भी अपडेशन के लिए हमारे आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

 ग) कंपनी की ग्रीन पहल का समर्थन करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि व अपने ई—मेल आईडी को अपने डी.पी. के साथ (यदि शेयर डीमेंट फॉर्म में हो) तथा हमारे आरटीए के साथ ई-मेल rta@alankit.com पर (यदि शेयर भौतिक रूप में हो पंजीकृत करें। कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हस्ता. / -

स्थान : नर्ड दिल्ली राजीव कालड़ दिनांक : 21.06.2024 कंपनी सचिव

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17-ए, चंडीगढ

(तीसरे और चौथे तल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित)

केस नं: ओए / 223 / 2024

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली,

यूको बैंक

बनाम

मेसर्स रिषभ टैक्सटाइल्स और अन्य

(1) मेसर्स रिषभ टैक्सटाइल्स, अपने प्रॉपराईटर श्री अशोक कुमार के माध्यम से, पताः दुकान

(3) श्री राजीव गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार, पता:- मकान नं, 1031, वार्ड नं, 5, पीर जी

समन

जुबकि, ओए/223/2024 दिनांक 23.04.2024 को माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक

जबिक, यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 6583654.43/—** के ऋण की वसूली के लिए आपके

विरुद्ध (ओए) अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन / नोटिस जारी

करने के लिए संतुष्ट है (दस्तावेज आदि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा(4) के अनुपालन में आप, प्रतिवादी को निम्न निदेश

(1) मांगी गई राहत क्यों न दी जाए का समन की सर्विस के तीस दिनों के अंदर कारण

(॥) मूल आवेदनों के क्रमांक ३ए पर आवेदक द्वारा उल्लिखित संपत्तियों और परिसंपत्तियों

(॥) प्रत्याभृत परिसंपत्तियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक ३ए पर उल्लिखित, विचाराधीन

और संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन के निपटारन के तहत ऐसी अन्य संपत्तियों और

(IV) किसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति हित किया गया है और ∕ या मूल आवेदन के

क्रमांक 3ए पर उल्लिखित अन्य संपत्तियों और परिसंपत्तियों को बिना न्यायाधिकरण के

पूर्व अनुमोदन के बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके, उसके व्यवसाय के सामान्य तरीके

(V) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों या व्यवसाय के सामान्य तरीके में अन्य परिसंपत्तियों और

संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री धनराशियों का हिसाब देने और ऐसी बिक्री धनराशियों

को ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभृति हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थानों में अनुरक्षित

आपको लिखित बयान दर्ज करने और इसकी एक प्रति आवेदक को देने तथा 07.08.2024

को समय सुबह 10:30 बजे पंजीयक के समक्ष हाजिर होने का भी निदेश किया जाता है,

अन्यथा आर्वेदन पर आपकी गैर–हाजिरी में ही सुनवाई की जायेगी और निर्णय दिया

समन जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांक:

(2) श्री अशोक कुमार (प्रॉपराईटर) मेसर्स रिषभ टैक्सटाइल्स, पुत्र श्री प्रेम चंद, पते:-

(1) दुकान नं. ४, गुप्ता कॉम्पलैक्स, शौरे क्लॉथ मार्केट, रोहतक, हरियाणा

(II) मकान नं. 1031, वार्ड नं. 5. पीर जी मोहल्ला. रोहतक. हरियाणा

1993 के नियम 5 के उप—नियम (2ए) के साथ पठित, के तहत समन

नं. ४, गुप्ता कॉम्पलैक्स, शौरे क्लॉथ मार्केट, रोहतक, हरियाणा

से इतर संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकटन-

को छोडकर, आप हस्तांतरित नहीं करेंगे:

खाते में जमा करना होगा।

03.05.2024 को जारी

परिसंपत्तियों से लेन-देन या निपटारन करने से आप निषिद्ध हैं;

मोहल्ला, रोहतक, हरियाणा

के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।



दि नैनीताल बैंक लिभिटेड

कृपया ध्यान दें कि खाता **श्री संजीव कृमार** हेतु विजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी + हिंदी) में दिनांक 21–06–202 को प्रकाशित ई–नीलामी सूचना में यहाँ खाता सं. में एक त्रुटि है कि यह **033420392000025 के स्थान प** 33420920000025 के रूप में प्रकाशित हो गया। यहाँ शेष विषयवस्त में कोई परिवर्तन नहीं है। दि नैनीताल बैंक लिमिटे

> कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार सिद्धार्थ खन्ना प्रोपराइटर मेसर्स ब्रांड विज़ेज कम्युनिकेशंस, गौतमी मेहना उर्फ गौतमी मेहना खन्ना, चारू खन्ना और कमल खन्ना उर्फ कमल कुमार खन्ना (गारंटर) को 23.11.2017 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLNOI00232965 की राशि रू. 48,24,768/- (रूपये अड़तालीस **लाख चौबीस हजार सात सौ अडसठ मात्र)** और 23.11.2017 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 20.06.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 48,24,768/- (रूपये अड़तालीस लाख चौबीस हजार सात सौ अड़सठ मात्र) 23.11.2017 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

'सुपरटेक ह्यूज" नामक परियोजना में, यूनिट नं. आर 0380T01103/ फ्लैट नं.1103, ग्यारहवीं मंजिल, ब्लॉक/टॉवर – 76 कैनवास, सुपर एरिया 1180 स्क्वे. फीट, रेवेन्यू एस्टेट पर स्थित, गाँव बादशाहपुर सेक्टर -68. गरुग्राम - 122001. हरियाणा

दिनांक : 20.06.2024 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गुडगाँव



Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2024-25/417

e-Tender Notice Online e-tenders are invited from Original manufacturers (as per

details given in tender documents) for supply of Boiler Chemicals HDPE/PP Bags 50 Kg, BIS certificate holder on Fixed based supply (as per details given in tender documents), Lime (Variable rates of Pet coke basis) and also from original manufacturers/Authorized Dealers for supply of Type A Jute bags 50 Kg with HM HDPE Virgin Food Grade Liner, Food Grade Phosphoric Acid, Caustic Soda Flakes and Process Chemicals to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd.. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation's website: www.upsugcorp.in from 24.06.2024.

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR



पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड

सीआई एन : **L74899DL1995PLC073281** 

**पंजीकृत कार्यालय** : 54. ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेस**–II**I, नई दिल्ली−110020 कॉरपोरेट कार्यालय: बी-206ए, सेक्टर-81, फेस-II, नोएडा-201305, उत्तर प्रदेश कोन : +91-120- 4093901 वैबसाइट : www.ppapco.in, ई—मेल आईडी : investorservice@ppapco.com

#### कंपनी के शेयरधारकों को नोटिस

विषयः निवेशक शिक्षण और बचाव कोष ("आईईपीएफ") में इक्विटी शेयरों का अनिवार्य अंतरण

रतदद्वारा निवेशक शिक्षण और बचाव कोष प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षण, हस्तांतरण औ रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधान अनुसरण में सचित किया जाता है कि कंपनी लगातार सात या अधिक वर्षों के लिए अभक्त या अदावित लाभांश वाले सभी शेयर कंपनी को आईईपीएफ के नाम में अंतरित करने हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए शेयर और दावा न किए गए लामांश को आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना है। विस्तृत जानकारी कंपनी की वैबसाइट https://www.ppapco.in/financials#

कंपनी ने सभी शेयरधारकों जिनके शेयर और अदावित लाभांश आईईपीएफ में अंतरित किए जाने के लिए संभाव्य हैं, को व्यक्तिगत नोटिस भेज रही हैं।

अभुक्त लाभांश का दावा रिजस्ट्रार और श्रेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच २, सी—1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058. फोन नं: 011-41410592. ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in को पत्र भेजकर 20 सितम्बर, 2024 या इससे पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।

नियमों के अनसरण में आईईपीएफ में अंतरित शेयरों और अदावित लाभांश के संबंध में कंपनी वं विरुद्ध कोई दावा नहीं बनेगा। हालांकि, संबंधित शेयरधारक प्रक्रिया का अनपालन कर औ नियमावली के तहत यथानिर्धारित दस्तावेज़ों को जमा कर आईईपीएफ में अंतरित शेयर और अदावित लाभांश की वापसी का दावा कर सकते हैं।

कृते पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड

पंखुरी अग्रवाल कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

मांग

सूचना

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Share Certificat No 7 for LT Foods Limited (INE818H01020 Equity Shares of Rs. 1/- (Rupees one only each bearing Distinctive No.(s) 86341-96340 Folio No. 0000103 of LT Foods Limited having its registered office at Unit No. 134 First Floor, Rectangle - 1, Saket District Centre, Saket 110017 registered in the nan of Mr. Gagan Pal Singh Anand (Alias Gaga Pal Singh) have been lost. Mr. Gagan Pa Singh Anand have applied to the compar for issue duplicate certificate. Any person who has any claim in respect of the said share certificate should lodge such claim with the company within 15 days of the publication of

the notice

प्रधान कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लि., एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापत मार्ग लोअर परेल, मुंबई-400 013. शाखा कार्यालयः एचडीएफसी बैंक लि., राजेन्द्र स्पेस We understand your world प्लॉट नं. 6, सेक्टर-16बी, आवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा-282007

सीन : नोएडा

दिनांक : 21 जुन, 2024

प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

unpaid\_and\_unclaimed\_dividend पर उपलब्ध है।

नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से नीचे उल्लेखित प्रत्यामृत ऋण हासिल किया है। नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदार के ऋणों को उनकी संबंधित सम्पत्तियाँ गिरवी पर रखकर प्रत्यामृत किया गया है। चूंकि उनके द्वारा संबंधित ऋण के अनुबंधों के नियम एवं शतों का अनुपालन करने व विफल हो चुके हैं तथा उसमें अनियमित होने के कारण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। एचडीएफर्स बैंक लि. के प्रति उनके द्वारा बकाया हो चुकी रकमों का उल्लेख नीचे सारणी में किया गया है तथा कथित रकम पर लागू दर पर आगे के ब्याज भी भुगतेय होगा तथ उनके संबंधित तारीखों से उसे वसूला जाएगा।

कर्जदारों का नामः श्री सूरज कुमार झा पिता श्री ब्रज मोहन पताः मोहम्मदाबाद मोहम्मदाबाद, ट्रण्डला फिरोजाबाद-28320

ऋण खाता सं./उत्पादः 110126020/ अल्ट्रा लाइट कमर्शियल 13(2) के अनुसार बकाया/सूचना की तारीखः एनपीए की तारीख दिनांक 16-05-2024 की स्थिति के अनुसार/ सुचना की तारीखः 17/05/2024

वूंकि सूचनाएं आपको आपके मूल आवास/लाम के लिए व्यवसायिक स्थल/व्यक्तिगत कार्य करने वाले पते पर मेजी गई थी, जो हमारे पास वापस नहीं पहुंची। हमलोग इर सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाव्य हैं। आपको एतदृद्वारा इस सूचना के 60 दिनों के अंदर उपरोक्त अधिनियम की घारा 13(2) के अधीन ऊपर उल्लेखित सर्म देयताओं के साथ संबंधित तारीखों से उस पर अनुबंधकीय दर पर व्याज तथा अन्य लागतों, शुल्कों इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा बैंक ऊपरोक्त उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन सभी अथवा किसी भी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सुचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) के मदेनजर आप ऊपर उल्लेखित प्रत्यामृत सम्पत्तियों को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे। अधिकृत अधिकारी, कृते एचडीएफसी बैंक लि. तारीखः 22.06.2024, स्थानः फिरोजाबाद

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

**कॉर्पोरेट कार्यालय** : कनाकिया वॉल स्ट्रीट, 5वां तल, ए 506–510, अंधेरी–कुरला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई–400093 अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी सार्वजनिक सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के परंतुक के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के

<mark>नियम 8 और 9 के तहत अचल परिसंपत्ति (याँ ) की बिक्री हेतु 15 दिनों की ई—नीलामी बिक्री सूंचना</mark> एतद द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं)और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल परिसंपत्ति प्रत्याभूत ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड /प्रत्याभूत ऋणदांता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''**जो है जैसा है'', ''जो है जहां है'', ''वहां जो कुध** 

भी है'' पर निम्न वर्णित दिनांक और समय पर भुगतान/प्राप्ति तक, उँघारकर्ताओं और गारेंटर(रॉ) से एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के निम्न वर्णित से देय राशि की वसूली उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य व्ययों के लिए बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, बयाना धन जमा ( ईएमडी)और ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक भी निम्न वर्णित है।

उधारकताओं/सह– उधारकर्ताओं/गारंटरों का नाम और ऋण खाता सं.	मांग सूचना दिनांक और राशि	अचल संपत्ति/ बंधक संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	इ—नालामा का दिनांक और समय
1. मेहामिया निवार कंपनी 2. सुनैना 3. मनोज कुमार गर्ग ऋण खाता सं. DEL000000018299	03.11.2022 और याशि रू 1,41, 26,582.52/— (रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख छब्बीस हजार पांच सी लास छब्बीस हजार पांच सी व्यासी और बावन पैसा मात्र) 27.10.2022 तक संग उस पर	औद्योगिक प्लॉ भूमि मापक 1190 वर्ग गज, स्थित वार्ड सं. 2, जिंद रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, गोहाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा— 131301 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। सीमांकन प्रकार: पूर्व: गोयल निवार फैक्ट्री, पश्चिम: मैसर्स जय भारत टेक्सटाईल्स की संपत्ति, दक्षिण; जिंद रोड, उत्तर: श्री गुलाब सिंह की संपत्ति।	(रूपये अस्सी लाख मात्र) ईएमडी: रू.८,००,०००/– (रूपये आठ लाख मात्र)	दिनांक : 16/07/2024 समय: 11:00 बजे से 02:00 बजे तक (संग प्रत्येक 5 मिनट के असिमित विस्तार के साथ)
र्ट नीलामी https://amhitfin	voet auctiontion not UV ಬಿಡಲ್ ಕ್ಲ	गोकगोर्क्सेट हेक्नोलॉजीज लिमिटेन के माध्यम में '' ऑ	नजारन'' आयोजित की जाएगी। बिकी की विस्तत बि	रामां और शतों के

डू-नालामा https://ambittinvest.auctiontiger.net पर मसर झ-प्रवाशयारीट ट्वनालाजांजा लामटङ माध्यम सं`आनलाङ्गन आयाजित को जाएगा। बिका को विस्तृत नियमा आर शती के लिए कृषया मेसर्स ई-मोवयोग्सेट टेवनोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्डान दाईगर) से संपर्क करें (हिल्प लाइन नेवर लॅंडलाइन− 79–681368801/881/842 फोन नंबर–9265582818/926556282/9265562819, संपर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा, ईमेल आईडी – ramprasad@auctiontiger.net या लिंक

https://ambitfinvest.auctiontiger.net का संदर्ग लें। अधिक जानकारी के लिए, श्री विजय शर्मा, वरिष्ठ प्रवेधक, गोबाइल सं. 9887871631, ईमेल आईडी –vijay.sharna@ambit.co , श्री पीयूष कुलश्रेष्ठ, कलस्टर संग्रह प्रवंधक, गोबाइल सं 9930444316, ईमेल आईडी – peeyush.kulshreshth@ambit.co और श्री संदीप कुमार, सहायक प्रवंधक, गोबाइल सं. 7053016294, ईमेल आईडी – sandeepkumar.k@ambit.co से संपर्क करें। देनांक : 21 जन, 2024 प्राधिकत अधिकार्र एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

Markets, Monday to **Saturday** 

To book your copy, sms reachbs to 57575 or email order@bsmail.in



जागि होजार प स्मर्शन शिक्षित कार्यालय : सेश्वम आईटी पार्क बी-2 विल्डिंग, डवां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र — 411 ८ शाखा कार्यालय : 44वां तल, अश्रवाल मेट्री हाइट्स, नेताजी सुमाप पेलेस, पीतमपुण, नई दिल्ली—110034 प्रामिकृत अविकारी का विस्तृण : नाम : लतित त्यागी, ईमेल आईडी : lalit.lyagi@bajajfinserv.in, मोबा. नं. 9855733149 / 8669189048

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिभिटेड

निवार में, १९६०५/३३१व४/ १०६०११६८५५५ एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमुद्धि हित प्रवर्तन अविनियम 2002 (अधिनियम)
के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के संबंध में ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सुबना
एतदद्वाच सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित कर्जवर/ शहर-कर्जवरा ने यहां निम्न विवरणित अचल संपत्ति बजाज हाउसिंग
एतदद्वाच सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित कर्जवर/ शहर-कर्जवरा ने यहां निम्न विवरणित अचल संपत्ति बजाज हाउसिंग
एतद्वाच सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित कर्जवर्शन संपत्ति (प्रतिमृत कारिस्त) को कर्ज्ञचा सरफासी ऐक्ट 2002 एवं उसकी नियमावर्शी
के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले तिया गया है। प्रतिमृत आसित का विकय, निम्न विवरणितानुसार बीएचएफएल को देय-मुग्तेय ऋण बकाया
की वर्षियों, लागू व्याज, सुन्कों एवं लागतों इत्यादि की वसूली के लिए बोलीवान करके सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। प्रतिभृत आसित का विक्रय 25-07-2024 को किया जा रहा है तथा बोलीदान का आयोजन, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम संख्या 8 व 9 के अंतर्गत एवं यहां नीचे विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों पर, ''जैसी है जहां है', ''जैसी है जो है'', ''वहां जो कुछ भी '' एवं ''कोई उपाय नहीं' आधार पर किया जायेगा

ऋण खाता विवरण/ कर्जदार/रों एवं गारंटर/रों का नाम और पता ई—नीलामी की तिथि एवं समय . सुरक्षित मूल्य - पुरमाय पूर्व 2 सम्पत्ति की ईएमडी 3 बोली वृद्धि 2. ईएमडी जमा की आंतिम तिथि 3. सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय 4. सम्पत्ति का वर्णन एलएएन :- H401HHL0231812, H401HLT0240765 1) ई—नीलामी की तिथि : 25—07—2024 पूर्वा. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ सुरक्षित मूल्य : रु. 13,50,000/-1. विपिन कुमार (कानूनी वारिस के माध्यम से चूंकि मृतक) (कर्जदार) पता: तृतीय तल, छत के अधिकार नहीं, (रुपये तेरह लाख पचास 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा की अंतिम तिथि हजार मात्र) ईएमडी : रू. 1,35,000/-4-07-2024 अप. 500 बजे (आईएसटी) तक ) निरीक्षण की तिथि : 24-06-2024 से 23-07-2024 तक सम्पत्ति सं. सी–195, झिलमिल, दिल्ली–110095 (रूपए एक लाख पैतीस हजार मात्र) सुरक्षित मूल्य अन्य पता : एस/ओ पन्ना लाल पता-बी-36. पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 04.00बजे (आईएसटी) के बीच टेलीकॉम स्टाफ क्वार्टर, विवेक विहार, ईस्ट दिल्ली—110095 अचल सम्पत्ति का वर्णन : फ्लैट नंबर जी-04, भू तल, बैक साइड की 10 प्रतिशत। , जिस्ति के प्रति । एलआईजी, लॉट नंबर एन.के.पी–1/58, न्याय खंड–1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010, परिमाप 30 वर्ग मीटर। पुरब : 12 मीटर बोली वृद्धि — रू. 25,000/-(रूमए पच्चीस हजार मात्र) कुल बकाया राशि : क्त 43,73,553/— (रूपए तेतालीस लाख तिहत्तर हजार पांच सौ तिरेपन मात्र) 14-06-2024 की प्रमावी तिथि से भावी ब्याज और उद्दभूत प्रभारों सहित प्लॉट नंबर 47, उत्तर : प्लॉट नंबर 59, एवं इसके गुणजों में। दक्षिण : प्लॉट नंबर 57

सार्वजनिक नीलामी के नियम एवं शर्ते निम्नानुसार हैं : सार्वजनिक नीलामी का आयोजन "जैसी है जहां है, जैसी है जो है और कोई उपाय नहीं" के आधार पर किया जा रहा है तथा संपत्ति का विक्रय बजाउ राउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ज्ञात अथवा अज्ञात विद्यमान एवं गावी समस्त ऋणभारों के साथ किया जा रहा है। 2 प्रतिभूत आस्ति का विक्रय सुरक्षित मूल्य ते कम पर नहीं किया जायेगा। 3. नीलामी बिक्री ईं-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी। 4. ई-नीलामी पोर्टल https://bankauctions.in के ग्राध्यम से 25-07-2024 को पूर्वी. 11.00 बजे से मध्या. 12.00 बजे तक और आगे 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ सम्पन्न होगी। 5. विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कुपया कम्पनी की वेबसाइट यूआरएल https://www.bajajhousingfinance.in/auction-notices देखें अथवा किसी स्पष्टीक . कृपया प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें। दिनांक : 22-06-2024 स्थान : दिल्ली / एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी (ललित त्यागी) बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटे

SHRIRMM HOUSING FINANCE

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : नं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001 कॉर्पोरेट कार्यालय : लेवल 3, वोखार्ट टावर्स, ईस्ट विंग, सी-2, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051, टोल फ्री: 1800-102-4345, सीआईएन : U65929TN2010PLC078004

ई-मेल : contact@shriramhousing.in, वेबसाइट : www.shriramhousing.in

सार्वजनिक सूचना

इस नोटिस के आधार पर, श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सभी ग्राहकों को 23 सितम्बर, 2024 से बीकानेर शाखा, राजस्थान के पते में परिवर्तन के बारे में सिचत किया जाता है।

शाखा नाम नये कार्यालय का पता (पुनर्स्थान) वर्तमान कार्यालय का पता प्रथम तल. विश्वास प्लाजा. रानी तल-II, पंजाब नैशनल बैंक बीकानेर बाजार सर्किल, बीकानेर, रानी ऊपर, बाजार राजस्थान-334001 राजस्थान-334001

अधिक जानकारी/प्रश्नों के लिए, कृपया टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क करें/हमें एक ईमेल भेजें/ऊपर दिए गए पते पर हमारी शाखा में जाएं।

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए दिनांक: 22 जून, 2024 स्थानः बीकानेर, राजस्थान अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता